

Vipul Limited

Vipul TechSquare Golf-Course Road, Sector-43 Gurgaon - 122 009 Tel: 91-124-406 5500 Fax: 91-124-406 1000 E-mail : info@vipulgroup.in www.vipulgroup.in

Ref. No. VIPUL/SEC/FY2023-24/2204

November 11, 2023

The Secretary
BSE Limited, (Equity Scrip Code: 511726)
Corporate Relationship Department,
At: 1ST Floor, New Trading Ring, Rotunda
Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal
Street, Fort, Mumbai-400001

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited,
(Equity Scrip Code: VIPULLTD)
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai-400051

Sub: Newspaper clippings regarding Unaudited Financial Results for the 2ND Quarter and Half Year ended on September 30, 2023 (Standalone and Consolidated)

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are forwarding herewith copies of Newspaper clippings regarding Unaudited Financial Results for the 2ND Quarter and Half Year ended September 30, 2023 (Standalone and Consolidated) published on Saturday, November 11, 2023 in "Business Standard", in English language and "Business Standard", in Hindi language.

You are requested to take the above information on record and bring the same to the notice of all concerned.

Thanking you
Yours faithfully
For **Vipul Limited**

(Sunil Kumar) Company Secretary A-38859

Encl: As above

MODIFICATION IN INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR KSK WATER INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
(to be read with Form G dated 23.08.2021)
OPERATING IN INFRASTRUCTURE INDUSTRY AT CHHATTISGARH
Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptos Board

of	India (Insolvency Resolution Process	for Corporate Persons) Regulations, 2016
_	RELEVANT F	PARTICULARS
	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN / LLP No.	KSK Water Infrastructures Private Limited PAN: AADCK6247P CIN: U41000TG2009PTC062890
2.	Address of the registered office	8-1-293/82/A/431/A, Road No. 22, Jubilee Hills, Hyderabad – 500 033
3.	URL of website	https://kskwater.co.in/
	Details of place where majority of fixed assets are located	Chhattisgarh
	Installed capacity of main products/ services	Pumping stations – (1 Operational, 2 not ye commissioned) 60 Kms of pipeline starting from Basantpur to KSK Mahanadi Power Plant in Nariyara, Chhattisgarh
	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	INR 204.02 Crores
_	Number of employees/ workmen	5
	financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	Further details can be obtained from Resolution Professional through request on E-mail–ip.kskwipl@ibcprofessionalsolutions.com
	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	Eligible Resolution Applicants were identified in accordance with Detailed Invitation fo Expression of Interest dated 23.08.202 available at – https://kskwater.co.in/
10.		07.09.2021. No further extensions provided apar from Order of Hon'ble NCLT in IA 522/2022 dt 05.06.2023 (consequential change in SI.No.11-14)
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	Initial Provisional List - 13.09.2021 Revised Provisional List - 31.07.2023
12.	Last date for submission of objections to provisional list	Initial - 18.09.2021 Revised - 05.08.2023
	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	Initial final list - 28.09.2021 Revised final list - 14.08.2023
	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	
	Last date for submission of resolution plans	14.12.2023 (As extended from earlier date o 14.11.2023) (subject to permissible extensions)
16.	Process E-mail ID to submit EOI	ip.kskwipl@ibcprofessionalsolutions.com
For	V	id/- /. Venkatachalam tesolution Professional teg No.: IBBI/IPA-002/IP-N00267/2017-18/10780
_	4 44 44 0000	leg No IBBI/IFA-002/IF-N00201/2017-10/10/

DREDGING CORPORATION OF INDIA LIMITED

CIN No:L29222DL1976PLC008129 Core-2, 1st Floor, "Scope Minar", Plot No.2A & 2B, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110091.

H.O: "Dredge House", HB Colony Main Road, Seethammadhara, Visakhapatnam - 530022. E-mail ID:kalabhinetri@dcil.co.ir Tel. No. – 0891-2523250; Fax. No. – 0891- 2560581; Website : www.dredge-india.com

NOTICE

FOR ATTENTION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY Sub: Transfer of Equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Notice is hereby given that pursuant to the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "Rules") (as amended till date) and pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("The Act") all shares in respect of which unpaid or unclaimed dividend for the year 2015-16 has been transferred to the IEPF shall also be transferred to the IEPF. The Rules, inter-alia contains the manner of transfer of the shares covered under sub-section (6) of Section 124 of the Act.

Year-wise details of all un-paid/un-claimed dividends and full particulars of shareholders, including their folio number or DP ID - Client ID whose shares are liable to be transferred to the IEPF have been made available in the website of the company www.dredge-india.com. A communication in this regard was also sent to all the shareholders by the Company in November 2023.

Shareholders may note that shares held both in physical as well as in dematerialised form are liable to be transferred to the IEPF. However, such shares along with any accrued benefits on these shares, if any, can be claimed back from the IEPF following the procedure mentioned in the Rules. In case, no communication is received from the concerned shareholders whether holding shares in

physical or in dematerialised form by 10/11/2023 the company shall initiate such steps as may be

necessary to transfer those shares to the IEPF following the method prescribed in the Rules. Shareholders having query in this regard are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent (R&TA) of the Company i.e. Mr.Virender Sharma, Manager (RTA), M/s. Alankit Assignments Limited [Unit: Dredging Corporation of India Limited], Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi- 110055, INDIA, Landline No.: +91-11-42541234, Email:

rta@alankit.com, Website: www.alankitassignments.com.

For Dredging Corporation of India Limited Place: Visakhapatnam (P. Chandra Kalabhinetri) Company Secretary Date: 11-11-2023

GP WIND (JANGI) PRIVATE LIMITED

Regulation 52(8) read with Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 Statement of Unaudited Financials Results for the guarter ended September 30, 2023 Regd Office:- S2, Lakshmi Nilayam, H.No.326, Begumpeta, 6-3-1186/A/8, Hyderabad-500016, Telangana CIN: U40300TG2010PTC070416

		(Rs. In Lakhs)	(Rs. In Lakhs)	(Rs. In Lakhs)
SI No	Particulars	Quarter	Half Year	Previous
OI INO	i di doddio	ending	ended	Year ended
		30-09-2023		
		(Unaudited)		(Audited)
01.	Total Income from Operations	1,690	1,675	6,560
02.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	693	511	1,803
03.	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	693	511	1,803
04.	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	238	285	1,228
05.	Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit / (Loss) for the period			
	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	239	285	1,229
06.	Paid up Equity Share Capital	25,168	25,168	25,168
07.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(3,339)	(4,407)	(4,772)
08	Securities Premium Account	-	-	-
09.	Net worth	21,289	20,761	20,396
10.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt*	19,626	21,619	21,634
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	
12.	Debt Equity Ratio	0.91	1.06	1.10
13.	Earning Per Share (of Rs 10/- each) - (Basic & Diluted)	0.09	0.11	0.49
14.	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15.	Debenture Redemption Reserve	-	-	-
16.	Debt Service Coverage Ratio	1.44	1.01	1.24
17.	Interest Service Coverage Ratio	3.09	2.14	2.43

* Outstanding Debentures

The above Financial results have been approved by the Board of Directors at their meeting held on November 10, 2023.

- 2. The above results have been repared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 ("Act") read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

 3. The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly results is available on the website of the NSE Limited (URL: https://www.nseindia.com) and the same is also available on Company's website (URL: http://gpwindjangi.in)
- меньные (ил.с. пирлуричноранул.н). A For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange of India Limited and can be accessed on the web site of NSE.

By Order of the board For GP Wind (Jangi) Private Limited

Place: Hyderabad (S Sundar Rajan) Date: November 10, 2023 Wholetime Director & CEO

DIN: 03594693

CONSOLIDATED

BAMBINO AGRO INDUSTRIES LIMITED CIN: L15440TG1983PLC004363

No.4E, Surya Towers, S.P. Road, Secunderabad - 500 003, Telephone No. 040-44363332, Email id cs@bambinoagro.com, Website: www.bambinoagro.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2023 (Po in lokho

Registered Address: No. 12-13-205,

	TOR THE GOARTER AND HALF TEAR E	ADED COTTI CEI	TEMBER 2020	(Rs. in lakns)
		Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
SI.		30-09-2023	30-09-2022	31-03-2023
No	Particulars	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income	10454.92	9483.21	30510.23
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and /or Extraordinary items)	666.13	576.84	1300.07
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	666.13	576.84	1300.07
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	480.81	403.87	921.38
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	480.81	403.87	921.38
6	Equity Share Capital	800.88	800.88	800.88
7	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (not annualised): 1. Basic 2. Diluted	6.00 6.00	5.04 5.04	11.50 11.50
No	z. Diluted	6.00	5.04	

1. The above is an extract of the detailed format of Un audited Financial Results filed with the Stock Exchange: under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

. The full format of the Audited financial Results is available on the websites i.e. www.bseindia.com www.bambinoagro.com For and on behalf of the Board of Directors of

BAMBINO AGRO INDUSTRIES LIMITED Sd/-

Place: Secunderabad Date: 10-11-2023

SHIRISHA RAGHUVEER MYADAM CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR DIN: 07906214

Wim Plast Ltd.

Read. Office: Survey-No.324 / 4 to 7 of Kachigam, Village Kachigam, Daman-396 210 Tel.: (022) 2686 3426/ 3427 | Email: wimplast@celloworld.com

CIN: L25209DD1988PLC001544 | Website: www.cellowimplast.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

STANDALONE

(₹ In lakhs except EPS)

Sr.		QUARTER ENDED		D	HALF YEAR ENDED YEAR ENDED		QUARTER ENDED			HALF YEAR ENDED		YEAR ENDED	
No.	Particulars	30.09.2023 Unaudited	30.06.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited	30.09.2023 Unaudited	30.06.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited
1.	Total Income from Operations (Net)	7,971.16	7,793.04	7,886.43	1,5764.20	15,925.36	32,942.57	7,971.16	7,793.04	7,950.94	1,5764.20	16,044.52	33,061.73
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	1,900.46	1,596.38	1,276.02	3,496.84	2,486.39	5,442.92	1,900.35	1,596.46	1,310.58	3,496.81	2,530.53	5,557.92
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1,900.46	1,596.38	1,276.02	3,496.84	2,486.39	5,442.92	1,900.35	1,596.46	1,310.58	3,496.81	2,530.53	5,557.92
4.	Net profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1,462.47	1,195.83	959.99	2,658.30	1,867.94	4,078.27	1,462.43	1,195.90	985.80	2,658.32	1,900.84	4,182.04
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1,495.73	1,205.88	1,029.22	2,701.61	1,942.47	4,042.17	1,495.70	1,205.95	1,044.72	2,701.63	1,962.24	4,132.80
6.	Equity Share Capital	1,200.34	1,200.34	1,200.34	1,200.34	1,200.34	1,200.34	1,200.34	1,200.34	1,200.34	1,200.34	1,200.34	1,200.34
7.	Other Equity						43,156.83						43,154.90
8.	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations) 1. Basic: 2. Diluted:	12.18 12.18	9.96 9.96	8.00 8.00	22.15 22.15	15.56 15.56	33.98 33.98	12.18 12.18	9.96 9.96	8.13 8.13	22.15 22.15	15.73 15.73	34.73 34.73
	ntae.												

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results for the quarter ended September 30, 2023 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.cellowimplast.com
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 10, 2023. The statutory auditor of the company have carried out a Limited Review of the aforesaid results

Date: November 10, 2023

Place: Mumbai

For and on behalf of the Board of Directors Wim Plast Limited

Pradeep G. Rathod (CEO, Chairman & Managing Director) (DIN - 00027527)



Date : 11 11 2023

Place: Hyderabad

VIPUL LIMITED Read, Office: Unit No. 201, C-50, Malviva Nagar, Delhi-110017

Corp. Office: Vipul TechSquare, Golf Course Road, Sector-43, Gurgaon-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, Phone No.: 0124-4065500, Website: www.vipulgroup.in Extract of Standalone Audited Financial Results for the 2ndquarter & half year ended September 30, 2023

(₹ In Lakhs except per share Earnings per share FOR THE QUARTER ENDED FOR THE HALF YEAR ENDED FOR THE EAR ENDE **Particulars** 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.03.2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Total Income from operations 867.5 722.14 1.444.6 1.589.7 2.876.23 4.696.0 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items) (709.15 (1,377.15)(907.87 (2,086.30) (2,232.44) (10,015.51 Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (709.15 (1,377.15)(907.87 (2,086.30 (11,665.59) (19,478.66 Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after (1,377.15) (2,086.30) (11.665.50) (19.478 66) (907.87) Exceptional and/or Extraordinary items) (709 15 Equity Share Capital 1.199.84 1.199.84 1.199.84 1.199.84 1,199.84 1.199.84 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)
Earnings per share (of ₹ 1/- each) (for continuing (907.87) (2,086.30) (11,665.59) (19,448.49) (709.15 (1,377.15)and discounted operations - Basic (0.59)(0.76)Extract of Consolidated Audited Fina r the 2n ırter & l 30, 2023 Total Income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax (817.36) (1,531.34) 2,750.64 (2,348.69) 1,284.03 (1,474.55 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after (817.36 (1.531.34) 2.750.64 (2.348.69) (8.149.12) (10.937.70 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after (1,708.10 (1,531.34)1,867.42 (3,239.43)(9,045.88) (11,733.80)Exceptional and/or Extraordinary items) Equity Share Capital
Total Comprehensive Income for the period 1199.84 1199.84 1199.84 1199.84 1199.8 Comprising Profit / (Loss) for the period (after (1.708.10)(1.531.34) 1.867.42 (3.239.43) (9.045.88) (11.704.20 tax) and other Comprehensive Income (after tax) Earnings per share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discounted operations

 Diluted NOTE:

Date: November 10, 2023

lace: Gurugram

The above are extracts of the detailed format of standalone and consolidated un-audited for the 2nd quarter and half year ended September 30 2023, filed with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd., under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosur Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The full format of the standalone and consolidated un-audited for the 2nd quarter and ha year ended September 30, 2023 is available on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on th Company's website i.e. www.vipulgroup.in.

(1.28)

1.56

(2.70)

(1.42

The above standalone and consolidated un-audited for the 2nd quarter and half year ended September 30, 2023 is reviewed by the Audit Committ ind on the recommendations have been approved by the Board of Directors at their respective meetings held on Friday, November 10, 2023 Further in accordance with the requirements of Regulation 33 of the Listing Regulations with the stock exchanges, the statutory auditor have carried out limited review for standalone and consolidated un-audited for the 2nd quarter and half year ended September 30, 2023 and the limited review eport has been approved by the Board.

he above results have been prepared in accordance with recognitions and measurements principles laid down in Ind AS prescribed under Sec 133 of the Companies Act. 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India hese results will be made available on the Company's website vizwww.vipulgroup.in and websites of BSE Limited and National Stock Exchange

of India Limited viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

(7.54

(9.78)

Punit Beriwa



BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED

Reg. Off: A-5 Pannamgadu Industrial Estate, Ramapuram Post, Nellore District, Andhra Pradesh 524401 Corp.Off: 443, Anna Salai, Teynampet, Chennai 600018 Ph: +91 44 24301000, Fax: +91 44 24364656 Corporate Identity Number: L40106AP1985PLC005318 Email: compliance@bgrenergy.com website: www.bgrcorp.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

			STANDALONE		CONSOLIDATED			
SI.	Particulars		Half Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Half Year ended	Quarter ended	
No.	i ai ilouiai s	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1.	Total Income from Operations	23524	38019	18083	23524	38019	18083	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(13236)	(25470)	(16266)	(13310)	(25621)	(16343)	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(13236)	(25470)	(16266)	(13310)	(25621)	(16343)	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(10639)	(19734)	(12147)	(10714)	(19886)	(12225)	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(10626)	(19722)	(12154)	(10701)	(19874)	(12232)	
6.	Equity Share Capital (Face value Rs.10/- each, fully paid)	7216	7216	7216	7216	7216	7216	
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)							
	1. Basic: Rs.	(14.75)	(27.35)	(16.83)	(14.81)	(27.49)	(16.91)	
	2. Diluted: Rs.	(14.75)	(27.35)	(16.83)	(14.81)	(27.49)	(16.91)	

Notes:

Date: November 10, 2023

1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the respective meetings held on November 10, 2023. 2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations

2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.bgrcorp.com

For BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED

Arjun Govind Raghupathy Managing Director



















This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement.

ARROWHEAD SEPERATION ENGINEERING LIMITED

Corporate Identity Number is U74210MH1991PLC062643

Our Company was incorporated as Arrowhead Seperation Engineering Private Limited on July 25, 1991 under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies Mumbai bearing Registration number 062643. The status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to Arrowhead Seperation Engineering Limited vide Special Resolution dated March 01, 2023. The fresh certificate of incorporation consequent to conversion was issued on April 18, 2023 by the Registrar of Companies, Mumbai. The Corporate Identification Number of our Company is U74210MH1991PLC062643. For further details, please refer to the cha "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no. 107 of this Prospectus.

Registered Office: Survey No 39 Village Mundhegaon Tal Igatpuri Nashik-422403 Tel No.: + 91 84228 29060; Email: info@arrowhead-dryers.co.in Website: www.arrowhead-dryers.com Contact Person: Radhika Bhootra, Company Secretary and Compliance Officer.

OUR PROMOTERS: AJIT MUNDLE AND JYOTI MUNDLE

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the Equity Shares are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE").

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF 5,58,000 EQUITY SHARES OF $\stackrel{?}{\sim}$ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF ARROWHEAD SEPERATION ENGINEERING LIMITED ("ASEL" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF $\stackrel{?}{\sim}$ 233/- PER SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO $\stackrel{?}{\sim}$ 1,300.14 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 30,000 EQUITY SHARES OF ₹ 10 EACH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY AGGREGATING MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THAN THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 5,28,000 EQUITY SHARES OF ₹10 EACH IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 29.82% AND 28.22% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS Rs. 10/- AND THE ISSUE PRICE IS 23.3 TIMES OF THE FACE VALUE

THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI (ICDR) REGULATIONS"). IN TERMS OF RULE 19(2)(b)(i) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED, THIS IS AN ISSUE FOR AT LEAST 25% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER CHAPTER TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 190 OF THE PROSPECTUS.

FIXED PRICE ISSUE AT Rs. 233/- PER EQUITY SHARE

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 600 EQUITY SHARES THEREAFTER

RISK TO INVESTORS:

Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all

2. The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is as follows:

Sr. No.	Name of the Promoters	Average cost of Acquisition (in Rs.)
I.	Ajit Mundle	6.15
II.	Jyoti Mundle	6.15

3. Weighted Average Cost of Acquisition calculated (on fully diluted basis for the trailing eighteen months) from the date of the Prospectus.

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (Rs. per Equity Shares)*	Issue Price (₹ 233/- per Equity Share)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue of shares.	NA	NA
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition of shares.	4.51	51.68 times

*There was no secondary sale/acquisition (exceeding 5% of pre issue capital) of shares in last 18 months of the date of Prospectus Investors are required to refer section Investors are required to refer section titled "Risk Factors" on page 21 of the Prospectus

ISSUE

OPENS ON: THURSDAY, NOVEMBER 16, 2023

Mandatory in Public Issues

from January 01, 2016

CLOSES ON: MONDAY, NOVEMBER 20, 2023

ASBA*

Simple, Safe, Smart | *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by way of Application- simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below

UPI now available in ASBA for individual UPI Applicants, whose application size are up to 5.00 lakh, applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. Applicant to ensure PAN is updated in Bank Account being blocked by ASBA Bank. List of Bank supporting UPI is also available in SEBI at

**UPI-Now available in ASBA for all individual investors applying in public issues where the application amount is up to Rs.5,00,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, DPs & RTAs, Retail Individual Investors and Non-Institutional Investors also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021, read with press release dated September 17, 2021.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI maybe availed by (i) Retail Individual Investors applying in the Retail Portion, and (ii) Individual Non-Institutional Investors applying with an application size of up to Rs.500,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 190 of the Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), the website of BSE Limited ("BSE") and in the General Information Document, ASBA Application forms can be downloaded from the website of the Stock Exchange and can be obtained from the list of banks that is available on the website of Securities and Exchange Board of India ("SEBI") at www.sebi.gov.in.

**List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to www.sebi.gov.in Investors applying using the UPI Mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI (https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=40 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=34) respectively, as updated from time to time. Axis Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue. For Issue related grievance investors may contact: Aryaman Financial Service Limited, Mr. Vatsal Ganatra, Tel: +91 - 22 - 6216 6999, E-mail: ipo@afsl.co.in. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and Mail Id: lpc.upi@npci.org.in; AXIS BANK LIMITED at Tel: +91 96196 98042 and Email: $fort.branchhead@axisbank.com; and the Registrar to the Issue at Tel: + 91 - 44 - 40020\overline{7}00 \ (5 Lines) and E-Mail: investor@cameodina.com . All Investors shall the Issue at Tel: + 91 - 44 - 40020\overline{7}00 \ (5 Lines) and E-Mail: investor@cameodina.com . All Investors shall the Issue at Tel: + 91 - 44 - 40020\overline{7}00 \ (5 Lines) and E-Mail: investor@cameodina.com . All Investors shall the Issue at Tel: + 91 - 44 - 40020\overline{7}00 \ (5 Lines) and E-Mail: investor@cameodina.com . All Investors shall the Issue at Tel: + 91 - 44 - 40020\overline{7}00 \ (5 Lines) and E-Mail: investor@cameodina.com . All Investors shall the Issue at Tel: + 91 - 44 - 40020\overline{7}00 \ (5 Lines) and E-Mail: investor@cameodina.com . All Investors shall the Issue at Tel: + 91 - 44 - 40020\overline{7}00 \ (5 Lines) and E-Mail: investor@cameodina.com . All Investors shall the Issue at Tel: + 91 - 44 - 40020\overline{7}00 \ (5 Lines) and E-Mail: investor@cameodina.com . All Investors shall the Issue at Tel: + 91 - 44 - 40020\overline{7}00 \ (5 Lines) and E-Mail: investor@cameodina.com . All Investors shall the Issue at Tel: + 91 - 44 - 40020\overline{7}00 \ (5 Lines) and E-Mail: investor@cameodina.com . All Investor . All$ participate in this Issue only through the ASBA process. For details in this regard, specific attention is invited to "Issue Procedure" on page 190 of the Prospectus. Applicants should ensure that DP ID, PAN, UPI ID (if applicable, in case of investor applying through UPI mechanism) and the Client ID are correctly filled in the Application Form. The DF ID, PAN and Client ID provided in the Application Form should match with the DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Application Form is liable to be rejected. Applicant should ensure that the beneficiary account provided in the Application Form is active. Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Application Form, the Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for any correspondences related to the Issue. Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants sole risk.

PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through this Prospectus are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited ("BSE"). in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle Approval letter dated August 21, 2023 from BSE Limited for using its name in this Offer Document for listing our shares on SME Platform of BSE Limited. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the SME Platform of BSF Limited ("BSF").

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Prospectus was not filed with and the Clause of SEBI" on page 171 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of the BSE" on page 173 of the Prospectus.

GENERAL RISKS: Investment in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to

take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page no. 21 of this Prospectus.

BASIS OF ISSUE PRICE: The Issue Price is determined by the Company in consultation with the Lead Manager. The financial data presented in chapter "Basis for Issue Price" on page 69 of the Prospectus is based on Company's Restated Financial Statements. Investors should also refer to the chapter titled "Risk Factors" and "Restated Financial Statements" on page 21 and 132 respectively of the Prospectus. The Audit Committees at a meeting recommended the Price noting that the Price is justified based on quantitative factors and key financial and operational performance indicators disclosed in 'Basis for Issue Price' section vis-à-vis the WACA of primary issuances /secondary transactions disclosed in the "Rasis for Issue Price" section

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013: Main Objects as per MoA of our Company: For information on the main objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 107 of the Prospectus and Clause III(A) of the Memorandum of Association of our Company, The MOA is a material document for inspection in relation to the Issue.

Liability of Members: The Liability of members of the Company is Limited. Amount of Share Capital of Our Company and Capital Structure: For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page 52 of

2.19.863

Name of the Signatories to the MOA of the Company and the number of Equity Shares held by them:

10

Original signatories **Current promoters** Face Value (Rs.) Name of Promoters No. of Shares Name of Promoters Face Value (Rs.) No. of Shares Aiit Mundle 10 1.88.175 Aiit Mundle 10 1.88.175

Jyoti Mundle

LEAD MANAGER TO THE ISSUE



Jyoti Mundle

60, Khatau Building, Ground Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Fort. Mumbai - 400 001 **Telephone:** +91-22 – 6216 6999 E-mail: ipo@afsl.co.in

Investors Grievance E-mail: feedback@afsl.co.in Website: www.afsl.co.in Contact Person: Vatsal Ganatra SEBI Registration Number: INM000011344

Date: November 11, 2023

REGISTRAR TO THE ISSUE

CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED

Subramanian Building, No. 1, Club House Road Chennai - 600 002.**Tel.:** +91 - 44 - 40020700 (5 Lines) E-mail: priya@cameoindia.com

Investor Grievance Email: investor@cameodina.com Website: www.cameoindia.com Contact Person: Ms. K. Sreepriva SEBI Registration. No.: INR 000003753

Email id: info@arrowhead-dryers.co.in Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or postissue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.

Radhika Bhootra

OMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Company Secretary and Compliance Officer.

Mundhegaon Tal Igatpuri Nashik-422403

Reg Office: Survey No 39 Village

Tel: + 91 84228 29060

10

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that Investment in Equity Shares involves a degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus shall be available at the website of Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.afsl.co.in and the website of the Issuer Company at www.arrowhead-dryers.com and the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application Form can be obtained from the Registered Office of Company, Arrowhead Seperation Engineering Limited, Tel. No: + 91 84228 29060; Office of Lead Manager: Aryaman Financial Services Limited, Email: ipo@afsl.co.in, Tel No.:+91-22-6216-6999; Self Certified Syndicate Banks; Registered Brokers: Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Issue, Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchange and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchange and SEBI.

BANKER TO ISSUE & SPONSOR BANK: Axis Bank Limited All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated November 08, 2023

For Arrowhead Seperation Engineering Limited On behalf of the Board of Directors

2.19.863

Ajit Mundle **Chairman and Managing Director**

DIN: 01745577 Place: Mumbai Arrowhead Seperation Engineering Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus is available on the website of the Lead Manager at www.afsl.co.in the website of the BSE Limited ("BSE") i.e. www.bseindia.com, and website of the Issuer Company at www.arrowhead-dryers.com

Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 21 of the Prospectus before making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of. "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be issued and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

✓ YES BANK

यस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय: यस बैंक हाऊस, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताक्रुज पूर्व, मुंबई- 400055, ई मेल- communications@yesbank.in CIN: L65190MH2003PLC143249, वेबसाईट : www.yesbank.in

आधिपत्य सूचना [नियम – 8(1) अचल संपत्ति हेतु]

यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में, नीचे विस्तार में वर्णित ऋणी को मांग सूचना पत्र जारी किया था जिसके तहत उक्त 13(2) धारा के अंतर्गत सूचना के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा संपूर्ण धनराशि न चुकाए जाने पर, एतद्वारा ऋणी को एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें दिए गए अधिकारों के अनुसरण में यहाँ वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्दवारा सतर्क किया जाता है कि संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा न करें एवं संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा यहाँ वर्णित राशि का उस पर अनुबंधित दर से ब्याज एवं लागत के भुगतान के साथ यस बैंक लिमिटेड को चुकाए जाने के अधीन किया जाएगा।

鋉.	ऋणी/सह–ऋणी एवं बंधककर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या	सुरक्षित बंधक संपत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रु.)	13 (2) सूचना के अनुसार दिनांक पुन: कब्जे की दिनांक
1		1. 07038460 000680 2. 703LA402 20310001 3. 703LA402 21490001	समस्त संपत्ति/मूमि, जिसका क्षेत्रफल 22 कनाल, 4 मरला के अंतर्गत एवं किला नं. 31/25(7-8), 42/5 (7-8) एवं 6 (7-8), ग्राम लकादिया, तहसील बेरी जिला झझर, हरियाणा- 124107	₹ 4,20,94,298.15/- (फपये चार करोड़ बीस लाख चौरानंवे हजार वौ सौ अञ्चानवे एवं पंद्रह पैसे मात्र) 06.08.2023 तक	06-08-2023 09-11-2023

अधिनियम की धारा 13(8) में अपेक्षित अनुसार, हमारे द्वारा खर्च किए गए सभी लागत, प्रभार एवं व्यय के साथ हमारी बकाया राशि का भगतान, सार्वजनिक निलामी / बिक्री या स्थानांतरण की निर्दिष्ट तिथि से पहले किसी भी समय कर दिया जाता है. तो हमारी ओर ये प्रतिभुत संपत्ति का विक्रय या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा एवं उक्त प्रतिभुत परिसंपत्ति के स्थानांतरण या बिक्री के लिए हमारी ओर से आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांक: 09.11.2023 प्राधिकत अधिकारी स्थान : हरियाणा (म.प्र.) यस बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI 🖈

फरीदाबाद शाखा : # 1 जी / 52, बी.पी. एनआईटी, दौलत राम धर्मशाला के सामने, बस स्टैंड के समीप, फरीदाबाद, हरियाणा - 121001 रभाष : 0129-2431335 / 2413552 / 2420328 / 2413718, ईमेल आईडी : faridabad.chandigarh@bankofindia.co.in

[नियम ८(1)] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हिर प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों प्रयोगान्तर्गत निम्न वर्णित उधारकर्ता(ओं) को खातों के समक्ष अंकित तथा यहां इसमें इसके उपरांत निम्न तालिका में उल्लेखित तिथि को धारा 13(2) व अंतर्गत मांग सचनायें निर्गत की थीं. जिनमें उधारकर्ता(ओं) को बकाया राशि का. उक्त सचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभगता करने को कहा गया था।

उधारकर्ता(गण) राशि का प्रतिमुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं) तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम (8) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, खाता के समक्ष यहां निम्नांकित तिथि को, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता(ओ) को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन—देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु **बैंक ऑफ इंडिया** के प्रभाराधीन होगा। **उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट**

74-47 -Hall 67				
उधारकर्ता, गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	मांग स्रूचनाओं की तिथि	स्रांकेतिक अधिग्रहण की तिथि	मांग सूचनाओं की तिथि के अनुसार बकाया राशियां	अचल संपत्ति का विवरण
उधारकर्ता(गण) : श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बदले राम तथा	04-07-2023	07-11-2023	रु 39,82,167.89 एवं राशि पर ब्याज	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो मकान सं. 156बी (पुराने भूखंड सं. 214 के दक्षिणी भाग)

सुबेश पत्नी श्री में समाविष्ट, माप 100 वर्ग गज अर्थात् रेक्ट. नं. 38, किला नं. 18/2, 23, रेक्ट. नं. 41, किला नं. 3/1, 8/2, 13/1 18/3, 23/1 के भाग की संरचना करते हुये, एसजीएम नगर, ब्लॉक एफ, मौजा फतेहपुर चंडीला, तहसील बड़खल जिला फरीदाबाद में स्थित, श्रीमती सुबेश पत्नी अशोक कुमार के स्वामित्वधारण में तथा इस प्रकार परिसीमित हैं : उत्तर— श्री लखमी चंद की संपत्ति.

दक्षिण– रास्ता, पूर्व– श्री प्रेम धन	कड़ की संपत्ति, प	गिश्चम— मकान नं. 1	56ए।	
उधारकर्ता(गण) : श्री इंद्रजीत	04-02-2023	08-11-2023	₹. 15,86,680.75	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो मका
सिंह पुत्र श्री करतार सिंह			एवं राशि पर लागू ब्याज	
जैसवाल तथा श्रीमती अंशु सेठी पत्नी श्री इंद्रजीत सिंह	पी07003402213, के भाग की	पुराने भूखंड सं. ड संरचना करते ह्	डी—39 का पूर्वी भाग) में समा हुये, जवाहर कॉलोनी, मौजा	विष्ट, माप 50 वर्ग गज, खसरा सं. 49/15/ । सरन, तहसील बङ्खल, जिला फरीदाबा
	,		9	जैसवाल के स्वामित्वधारण में तथा इस प्रका 1 — भूखंड सं. डी–38, पश्चिम — भूखंड स
डी–39 का शेष भाग।	3-7			

दिनांक : 10-11-2023 स्थान : फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी

ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड सीआईएन:- L74899DL1984PLC018268

पंजीकृत कार्यालयः 98ए, दूसरा तल, नंबरदार एस्टेट, तैमूर नगर, नई दिल्ली-110065 फोन नं.- 011-41064256, फैक्स नं.- 011-26322664, ई-मेल: cs@oswaloverseasltd.com, वेबसाइट: www.oswaloverseasltd.com

					(रु. लाखों में)
क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	छमाही समाप्त	छमाही समाप्त
۲۱.	144.1	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022
		अलेखापरीक्षित	_ लेखापरीक्षित _	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	1474.97	2767.11	5213.52	8626.18
2.	साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि)				
	(कर और विशिष्ट मदों से पूर्व)	-399.43	-452.46	-1147.10	-909.02
3.	कर पूर्व साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि)				
	(विशिष्ट मदों के बाद)	-399.43	-452.82	-1147.10	-910.16
4.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)				
	(विशिष्ट मदों के बाद)	-399.43	-452.82	-1147.10	-910.16
5.	अन्य समग्र आय	1.46	0.45	1.98	0.67
6.	शुद्ध लाभ ∕ हानि	-397.97	-452.36	-1145.12	-909.49
7.	इक्विटी शेयर पूंजी	646.11	646.11	646.11	646.11
8.	रु. 5/- के शेयरों की संख्या (लाख में)	129.22	129.22	129.22	129.22
9.	आरक्षित निधि (पूर्व वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाए अनुसार				
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोंड़कर)				
10.	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (रु. 5/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
	बेसिक:	-3.08	-3.50	-8.86	-7.04
	डायल्यटेड:	-3.08	-3 50	-8 86	-7 ∩4

- ऊपर सेबी (सचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली. 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गये तिमाही वित्तीर रिणामों के विस्तृत रूप का एक सार है। तिमाही परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप बीएसई लिमिटेंड की वेबसाइट और कंपन (www.oswaloverseasltd.com) पर उपलब्ध है।
- उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 10 नवंबर, 2023 को आयोजित उनकी बैठकों में अनुमोदित किए गये हैं।
- चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है जिसमें पेराई सामान्यतः नवंबर और अप्रैल के बीच की अवधि में होती है और बिक्री वर्ष भर चलती है। कंपनी क कार्य निष्पादन तिमाही से तिमाही बदलता रहता है।

परमजीत सिंह दिनांकः 10.11.2023 स्थान : नई दिल्ली (प्रबंध निदेशक) डीआईएनः 00313352

V Vinul विपुल लिमिटेड

पंजी, कार्यालय यनिट नंबर 201, सी-50, मालवीय नगर, दिल्ली-110017 कार्पोरेट कार्यालय : विपुल टेकस्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुड़गांव-122009

						र आय को छोड़	कर रु. लाखा म
क्र.			समाप्त तिमाही	हेतु	समाप्त ह	माही हेतु	. समाप्त वर्ष हेतु
सं.	विवरण	30.09.2023 अलेखापरीक्षित	30.06.2023 अलेखापरीक्षित	30.09.2022 अलेखापरीक्षित	30.09.2023 अलेखापरीक्षित	30.09.2022 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	867.58	722.14	1,444.65	1,589.72	2,876.23	4,696.04
2	अवधि हेत् शुद्ध लाभ (हानि) (कर, अवपादस्वरूप						
3	और/या असाधारण सामग्री से पूर्व) कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ (हानि) (अवपाद	(709.15)	(1,377.15)	(907.87)	(2,086.30)	(2,232.44)	(10,015.51)
	स्वरूपे और/या असाधारण सामग्री से उपरान्त)	(709.15)	(1,377.15)	(907.87)	(2,086.30)	(11,665.59)	(19,478.66)
5	कर उपरान्त अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (अवपाद स्वरूप और/या असाधारण सामग्री से उपरान्त) इक्वीटी शेयर पंजी	(709.15) 1,199.84	(1,377.15) 1,199.84	(907.87) 1,199.84	(2,086.30) 1,199.84	(11,665.59) 1,199.84	(19,478.66)
6	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (शामिल लाभ/ (हानि) अवधि हेतु (कर उपरान्त) एवं अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त)	ez.		(6)			
7	प्रति शेयर आय (रु. 1/- प्रति का) (जारी और बंद परिचालन हेत्)	(709.15)	(1,377.15)	(907.87)	(2,086.30)	(11,665.59)	(19,448.49)
	-बेसिक	(0.59)	(1.15)	(0.76)	(1.74)	(9.72)	(16.23)
	-डायलुटेड	(0.59)	(1.15)	(0.76)	(1.74)	(9.72)	(16.23)
	30 सितंबर, 2023 को समाप्त दूसरी ति	माही और छम	गही के लिए र	पमेकित लेखा			
1	परिचालन से कुल आय	980.04	820.56	4,865.36	1,800.60	6,443.82	8,482.59
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (हानि) (कर, अवपादस्वरूप और/या असाधार्ण सामग्री से पूर्व)	(817.36)	(1,531.34)	2,750.64	(2,348.69)	1,284.03	(1,474.55)
1	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ (हानि) (अवपाद स्वरूप और/या असाधारण सामग्री से उपरान्त) कर उपरान्त अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (अवपाद	(817.36)	(1,531.34)	2,750.64	(2,348.69)	(8,149.12)	(10,937.70)
5	स्वरूप और/या असाधारण सामग्री से उपरान्त) इक्वीटी शेयर पूंजी	(1,708.10) 1199.84	(1,531.34) 1199.84	1,867.42 1199.84	(3,239.43) 1199.84	(9,045.88) 1199.84	(11,733.80) 1199.84
6	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (शामिल लाभ/ (हानि) अवधि हेतु (कर उपरान्त) एवं अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त)	(4.700.40)	(4.504.04)	4.007.40	(2.000.40)	(0.045.00)	(44.704.00)
7	प्रति शेयर आय (रु. 1/- प्रति का) (जारी और बंद परिचालन हेत)	(1,708.10)	(1,531.34)	1,867.42	(3,239.43)	(9,045.88)	(11,704.20)
	-बेसिक	(1.42)	(1.28)	1.56	(2.70)	(7.54)	(9.78)
	-बासक -डायलुटेड	(1.42)	(1.28)	1.56	(2.70)	(7.54)	(9.78

द्रष्टव्य . उपरोक्त 30 सितंबर, 2023 को समाप्त दसरी तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन और समेकित अन-ऑडिटेड के विस्तत प्रारूप के उद्धरण हैं, जो सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के विनियमन 33 के तहत बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज . ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ दायर किए गए हैं। 30 सितंबर, 202े3 को समाप्त दूसरी तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन और समेकित अन-ऑडिटेड का परा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.vipulgroup.in

30 सितंबर, 2023 को समाप्त दसरी तिमाही और छमाही के लिए उपरोक्त स्टैंडअलोन और समेकित अन-ऑडिटेड की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है और सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा शक्रवार, 10 नवंबर, 2023 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में अनमोदित किया गया है। इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग विनियमों के विनियम 33 की आवश्यकताओं के अनुसार, वैधानिक लेखा परीक्षक ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन और समेकित अन-ऑडिटेड के लिए सीमित समीक्षा की है और सीमित समीक्षा की है। रिपोर्ट को बोर्ड ने मंजूरी दे दी हैं।

उपरोक्त परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित इंड एएस में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों, उसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.vipulgroup.in और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात

> बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से विपुल लिमिटे

प्रबंध निदेशक, सीईओ एवं सीएफओ

दिनांक : 10 नवंबर, 2023

www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्थान : गुड़गांव